

मांग संख्या DEMAND NO. 31

व्यय विभाग DEPARTMENT OF EXPENDITURE

I. व्यय विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये आवश्यक धनराशि का अनुमान।

I. Estimates of the amount required in the year ending 31st March, 2026 to defray charges in respect of DEPARTMENT OF EXPENDITURE

	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	(₹ करोड़) (In ₹ crores)
भारित Charged :	...	...	...	
स्वीकृत Voted :	540.52	63.31	603.83	

II. शीर्ष जिनके अन्तर्गत वित्त मंत्रालय की ओर से इस अनुदान का हिसाब दिखाया जाएगा।

II. The Heads under which this Grant will be accounted for on behalf of the MINISTRY OF FINANCE

		मुख्य शीर्ष Major Head	वास्तविक 2023-2024 Actuals	बजट अनुमान 2024-2025 Budget Estimates	संशोधित अनुमान 2024-2025 Revised Estimates	बजट अनुमान 2025-2026 Budget Estimates
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
सचिवालय-सामान्य सेवाएं	Secretariat-General Services	2052	328.57	353.94	420.12	496.27
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services	2070	52.11	58.74	57.26	44.25
जोड़ - राजस्व भाग	Total-Revenue Section		380.68	412.68	477.38	540.52
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Administrative Services	4070	48.56	91.46	53.55	63.31
जोड़ - पूंजी भाग	Total-Capital Section		48.56	91.46	53.55	63.31
कुल जोड़	GRAND TOTAL		429.24	504.14	530.93	603.83

टिप्पणी: उपरोक्त अनुमानों में नीचे दिखाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटा कर खातों में समायोजित कर दिया जाता है।

Note: The above estimates do not include the recoveries shown below which are adjusted in reduction of expenditure

राजस्व भाग	Revenue Section					
सचिवालय-सामान्य सेवाएं	Secretariat-General Services	2052	-0.21	...	...	...
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services	2070	-0.08	...	...	...
जोड़ - राजस्व भाग	Total-Revenue Section		-0.29	...	...	...

उपयुक्त वसूलियों को घटा कर व्यय व्यवस्था इस प्रकार होगी:

The expenditure provisions, net of the above recoveries, will be as under:

राजस्व	Revenue	380.39	412.68	477.38	540.52
पूंजी	Capital	48.56	91.46	53.55	63.31
जोड़	Total	428.95	504.14	530.93	603.83